



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 434]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 5, 1983/कार्तिक 14, 1905

No. 434]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5, 1983/KARTIKA 14, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1983

अधिसूचनाएं

सं. 266/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. निं. 826(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 37 की उपमद 2(1) के अंतर्गत आने वाली उद्भाषित चलचित्र फिल्मों को, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ;

परन्तु इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट केवल ऐसी उद्भाषित चलचित्र फिल्मों को लागू होगी जो केन्द्रीय फिल्म प्रमाणिकरण बोर्ड या मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग द्वारा सभाचार फिल्मों के रूप में प्रमाणित की जाती है ।

[फा. सं. 60/4/83-केउश-2]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, the 5th November, 1983

NOTIFICATIONS

No. 266/83-CENTRAL EXERCISE

G.S.R. 826(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts the exposed cinematograph films, falling under sub-item II(i) of Item No. 37 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944(1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act:

Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to such exposed cinematograph films as are certified by the Central Board of Film Certification or the Chief Producer. Films Division, to be news reels.

[F. No. 60/4/83-CX.2]

सं. 267/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 827(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 78/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस अधिसूचना में अर्थाद्वैष्ट छूट केवल ऐसी चलचित्र फिल्मों को लागू होगी जो केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा शैक्षिक उपयोगिता वाली फिल्मों के रूप में प्रमाणित की जाती है।”

[फा. सं. 60/4/83-केउशु-2]

No. 267/83-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 827(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 78/79-Central Excise, dated the 1st March, 1979, namely :—

In the said notification, for the proviso, the following proviso shall be substituted namely :—

“Provided that the exemption contained in this notification shall apply only to such cinematograph films as are certified by the Central Board of Film Certification as films which are predominantly educational.”

[F. No 60/4/83-CX.2]

सं. 268/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 828(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 81/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 87 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“88 सं. 266/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 5 नवम्बर, 1983” ।

[फा. सं. 60/4/83-केउशु-2]

किशन सिंह, अवर सचिव

No. 268/83 CENTRAL EXCISES

G.S.R. 828 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 81/83-Central Excises, dated the 1st March, 1983, namely:—

In the said notification, after Sl. No. 87 and the entry relating thereto, the following Sl.No. and entry shall be inserted, namely :—

“88 No. 266/83-Central Excises, dated 5th November 1983”.

[F. No. 60/4/83-CX.2]

KISHAN SINGH, Under Secy.